

सराहनीयकार्य जनपद सम्भल दिनांक -10.10.2019

अन्तर्राज्यीय 02 शातिर चोर 420 पेटी सेब से भरे चोरी के आयशर कैंन्टर व अवैध शस्त्र के साथ

गिरफ्तार थाना नखासा

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री यमुना प्रसाद एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सम्भल डा0 के0के0 सरोज के नेतृत्व में आज दिनांक 10.10.19 को व0उ0नि0 थाना नखासा ने मय हमराह पुलिस बल के चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर नाहरठेर के पास अतीक के बाग से अभियुक्तगण 1. इसराक 2. साविर को चोरी किये गये 420 पेटी सेब से भरे चोरी के आयशर कैंन्टर नं0 एचआर 74 ए 8032 तथा अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया । चोरी किये गये माल की कीमत करीब 21 लाख रूपये है ।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम लोग हरियाणा राज्य की मण्डियों में जाकर खड़ी हुई गाडियों पर नजर रखते हैं जहाँ सुनसान स्थानों पर गाडियां खड़ी होती हैं मौका पाकर गाडियों को चुरा लेते हैं तथा दूर अन्य राज्यों की मण्डियों में गाडी का माल बेच देते हैं, तथा ग्राहक तलाश कर गाडी को भी बेच देते हैं व आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं । हम लोगों ने यह सेब से भरा आयशर कैंन्टर फिरोजपुर झिरका (हरियाणा) से चोरी किया था, तथा बेचने की फिराक में थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इसराक (चालक) पुत्र अख्तर नि0 हतन गांव थाना विछोरा जनपद नुह (हरियाणा)
2. साविर पुत्र अब्दुल रहमान नि0 जयमत थाना पुन्हाना जनपद नुह (हरियाणा)

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद आयशर कैंन्टर नं0 एचआर 74 ए 8032 जिसमे 420 पेटी सेब भरे
2. एक अदद तमंचा मय 04 कारतूस जिन्दा
3. एक अदद चाकू

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0 472/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414/420 भादवि बनाम इसराक आदि 02 नफर थाना नखासा जनपद सम्भल
- 2.मु0अ0सं0 473/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इसराक थाना नखासा जनपद सम्भल
- 3.मु0अ0सं0 474/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम साविर थाना नखासा जनपद सम्भल

नोट:- अभियुक्त गणों के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी एवं गिरफ्तार करने वाले टीम-

व0उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना नखासा

श्री विजेन्द्र मलिक प्रभारी मय स्वाट टीम

उ0नि0 बलराम सिंह थाना नखासा

का0 266 प्रशान्त कुमार थाना नखासा

श्री रविन्द्र सिंह सर्विलांस प्रभारी मय टीम

उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना नखासा

का0 239 अतुल कुमार थाना नखासा

का0 337 अभिषेक राणा थाना नखासा

